

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office- 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035
Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurugram-122002
E-mail: info@sainik.org Website: www.sainikfinance.com CIN: L26912DL1991PLC045449
Telephone No.-011-28315036/0124-2719000 Fax No.-011-28315044/ 0124-2719100

=====

To,
The Manager- Listing
BSE Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001


Sub: Submission of cutting of newspapers in which advance notice of Board Meeting and Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September 2021 were published.

Dear Sir,

Please find attached herewith cutting of newspapers (Financial Express and Haribhoomi) in which advance notice of Board Meeting and Unaudited Financial Results for the quarter 30th September, 2021 were published.

Request you to take the same on your records.

Thanking You,
Yours faithfully,
For Sainik Finance & Industries Limited


Jagdish Chandra
Chief Financial Officer
Dated 13th November, 2021
Place: Gurugram



सड़क सुरक्षा और सवारी जागरूकता अभियान

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ गुरुग्राम

दो या चार पहिया वाहनों की सवारी करते समय जागरूकता फैलाने और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सिकल इंजीनियरिंग विभाग, एफईएटी, एसजीटी विश्वविद्यालय ने एसजीटीयू परिसर में सड़क सुरक्षा और सवारी जागरूकता पर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

हीरो मोटो कॉर्प कैंप के विशेषज्ञ, हीरो ग्रुप के राइडर ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए किसी भी हालत में दोपहिया वाहनों के



संकरे रास्तों पर ब्रेक लगाने के सही तरीके का लाइव प्रदर्शन किया। इस जागरूकता अभियान में बड़ी संख्या में एसजीटी विश्वविद्यालय के

सिविल विभाग, इंजीनियरिंग के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से टीम के सदस्यों ने विभिन्न गियर प्रदर्शित किए जो

जीवन सुरक्षा और दोपहिया वाहनों की सवारी के दौरान आवश्यक हैं। देश में प्रतिदिन दो या चार पहिया वाहनों के कारण हुई दुर्घटनाओं से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं और अधिकांश मामलों में युवाओं की मृत्यु के मामले ज्यादा सामने आते हैं। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से, एसजीटी विश्वविद्यालय ने प्रचार किया कि वह दोपहिया वाहन चलाने वाले किसी भी उम्र के युवा हों या बुजुर्ग, सड़कों पर सवारी करते समय उचित सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।

मानव रचना को तीन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ फरीदाबाद

मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को सरकार द्वारा खेलों में तीन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के पूर्व छात्र अभिषेक वर्मा (इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन) को अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट्स डायरेक्टर एवं पूर्व क्रिकेटर सरकार तलवार को द्रोणाचार्य अवार्ड और मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड दिया गया है। युनिवर्सिटी लेवल पर पूरे भारत में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को

पूर्व छात्र एवं शूटर अभिषेक वर्मा को अर्जुन पुरस्कार



यह अवार्ड मिलना गर्व की बात है। खेल मंत्रालय और सरकार को धन्यवाद देते हुए मानव रचना

एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के उपाध्यक्ष डॉ. अमित भल्ला ने कहा कि ये पुरस्कार हमारे देश की खेल प्रतिभा को पोषित करने में हमारे निरंतर ध्यान और प्रयासों की मान्यता है।

यह सब हमारे संस्थापक डॉ. ओपी भल्ला के दृष्टिकोण से शुरू हुआ, जो हमारे युवाओं को शक्ति का दौहन करने के लिए एक बहुत ही मजबूत खेल केंद्रित पाठ्यक्रम में विश्वास करते थे। हमारे रजत जयंती वर्ष पर, यह मान्यता और भी खास

है। उल्लेखनीय है कि मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ने देश के लिए विभिन्न खेलों में कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदकों का योगदान दिया है। संस्थान ने वर्षों से कई खिलाड़ियों की शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रायोजित किया है। अत्याधुनिक खेल सुविधाओं, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों, मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर मानव रचना के साथ हजारों छात्र और एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के निर्देशों एवं हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉर्टी के आदेश पर पूर्णतः प्रतिबंध: आयुक्त फरीदाबाद में पटाखे बेचे या खरीदे तो दर्ज होगा केस, बच्चों ने चलाए तो अभिभावकों पर कार्रवाई

फरीदाबाद में पटाखे बेचे या खरीदे तो दर्ज होगा केस, बच्चों ने चलाए तो अभिभावकों पर कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ फरीदाबाद

पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने बुधवार को टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक एवं चौकी प्रभारियों से मीटिंग लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटाखे चलाने पर प्रतिबंध के आदेश पर कार्रवाई के करने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी और क्राइम ब्रांच को पटाखे क्रैकर्स, के मामलों में सिल्वन लोगों के खिलाफ हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 9 बी एक्सप्लोसिव एक्ट और आई पी सी 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

अभिभावकों को भी समझाइए, बच्चों पर रखें नजर

पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों को आदेश दिया है कि सभी शहर में अपने-अपने एरिया में मौजिज व्यक्तियों आरडब्ल्यूए के प्रधान तथा गांव के सरपंच नम्बरदार को,

खास बातें
■ पुअर एयर क्वालिटी को देखते हुए दिए निर्देश
■ पुअर एयर क्वालिटी को देखते हुए दिए निर्देश



माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटाखे न चलाने को लेकर आये आदेशों के बारे अवागत कराये, जागरूक करें की उनके ऐरिया के लोग पटाखे न चलाए, वरना कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा किया जाएगा। वहीं अभिभावकों को भी कहा गया है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वे बच्चे पटाखे न चलाएं। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे पटाखे चलाते हुए पकड़े गए तो उनके अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के कई जिलों में लागू रहेगा प्रतिबंध ,144 लागू
एनसीआर की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में पुअर एयर क्वालिटी को देखते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश कि अनुपालना में जिला उपायुक्त जितेंद्र शर्मा ने पटाखे चलाने पर बैन के आदेश पारित किए हैं इसके साथ ही उन्होंने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं,

जिसके मद्देनजर फरीदाबाद शहर में किसी भी प्रकार के पटाखे बेचने और चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेश अनुसार फरीदाबाद शहर के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगते हुए और भी हरियाणा के कई जिलों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है।

कोरोना भी का दिया हवाला

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी आदेशों की अवहेलना करेगा फरीदाबाद पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पटाखों से निकलने वाले धुएं से हवा खराब हो जाती है। कोरोनावायरस और प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है अतः आप, अपने और आसपास रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटें। आदेश की उल्लंघन करने वालों की सूचना 112 या अपने नजदीकी थाने में दें।

पुलिस कमिश्नर बोले
सुरक्षा दृष्टि से सादे लिबास में 1500 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात



फरीदाबाद। अखिल भारतीय शाहमण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने बुधवार को फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और जनता के बीच तालमेल के अलावा दीपावली की मीके पर शहर की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। इस मीके पर वरिष्ठ अधिकता हरीश पाराशर एवं कृष्णा पाराशर भी मौजूद रहे। वहीं, इस मुलाकात के दौरान पुलिस कमिश्नर ने शहर वासियों को दिवाली की शुभकामना देते हुए लोगों से अपील की है कि सख्तिव्यवस्था एवं वस्त्र के बारे में 112 पर पुलिस को सूचित करें। वैसे तो पहले से ही दीपावली के पूर्व को लेकर बाजार, मेट्रो स्टेशन, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स में कैमरा क्राइम बांच सहित करीब 1500 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात। लेकिन सख्तिव्यवस्था एवं वस्तुओं पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए हैं। फरीदाबाद शहर में मीड माड जाली जगह पर पुलिस सीसीटीवी कैमरा और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के द्वारा पैनी नजर रख रहे हैं। लगभग 200 पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में शहर के अलग-अलग मीडमाड वाले क्षेत्र जैसे कि बाजार शॉपिंग कंपलेक्स मॉल इत्यादि में तैनात किया है।

चोरी-छिपे बेच रहा था पटाखे, पुलिस ने दबोच

फरीदाबाद। पुलिस चौकी सेक्टर 19 के प्रमारी केशव चन्द की टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 किलोग्राम पटाखों सहित एक आरोपी को काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी चमन ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग चोरी-छिपे अलग-अलग इलाकों में पटाखे बेचे जा रहे थे। पटाखों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के साथ सेक्टर 19 पुलिस चौकी में चोरी छिपे पटाखे बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी चमन के कब्जे से 21 किलोग्राम पटाखे



मैनेजमेंट एक्ट धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।

...ताकि सबके घर भी हों रोशन, रुई-दीपक, वस्त्र बांटे

फरीदाबाद। भारती चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीवाली के शुभ अवसर पर गरीबों में मिट्टी के बने हुए दीपक बांटे गए। जिससे हर परिवार दीवाली के त्यौहार को खुशियों व रोशनी के साथ मनाए। भारती चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. धर्मदेव सिंह नानंद ने कहा कि दिवाली के त्यौहार पर अखंड परिवारों जिनके पास पैसे की मजबूरी है। उन परिवारों के बीच जाकर संस्था द्वारा मिट्टी के दीपक, रुई, लेल व 50 परिवारों को कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर सरिता नानंद, धारा सिंह नानंद, वीरभद्र आर्ष, सुनील तालान, विनोद भाटी, जितेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, नरेश शर्मा, चमनलाल, उषा सक्सेना आदि ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे।



भारती चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. धर्मदेव सिंह नानंद ने कहा कि दिवाली के त्यौहार पर अखंड परिवारों जिनके पास पैसे की मजबूरी है। उन परिवारों के बीच जाकर संस्था द्वारा मिट्टी के दीपक, रुई, लेल व 50 परिवारों को कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर सरिता नानंद, धारा सिंह नानंद, वीरभद्र आर्ष, सुनील तालान, विनोद भाटी, जितेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, नरेश शर्मा, चमनलाल, उषा सक्सेना आदि ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे।

आयुर्वेद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा: सुधीर सिंगला



गुरुग्राम। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद के माध्यम से पुराने से पुराने बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। यह बात उन्होंने यहां सेक्टर-4 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयुष विभाग गुरुग्राम द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए गए भगवान धनवन्तरी के अवतरण दिवस समारोह में कही। विधायक सुधीर डूषसगला ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमाणों के आधार पर कहा कि आयुर्वेदिक दवाएं बीमारी को जड़ से समाप्त करती हैं। आयुर्वेद का उपचार हजारों वर्ष पुराना है। यह उपचार घर में, पड़ोस में या फिर नजदीक के जंगल में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आयुर्वेदिक दवाएं बहुत ही सस्ती होती हैं। साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। विधायक ने कहा कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि इंसान कभी बीमार ही न हो। इसके छोटे-छोटे उपचार हैं। जो बहुत ही आसान हैं, जिन्हें अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद का 85 फीसदी हिस्सा स्वस्थ रहने के लिए है और केवल 15 फीसदी हिस्से में आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं।

हरिद्वार की धर्म संसद में सनातन की रक्षा के लिए जाएंगे बड़े फैसले

गाजियाबाद। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संत समाज सनातन धर्म की रक्षा के लिए जय घोष की घोषणा करेगा। यह घोषणा जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि महाराज ने बुधवार को यहां उत्तर भारत के सिद्ध पीठ दूधेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महंत नारायण गिरी के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाएगा और हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी क्रम में दूधेश्वर नाथ पीठद्वारा स्वामी नारायण गिरी ने कहा कि आज सनातन धर्म खतरे में है और संतों का सबसे पहले दायित्व धर्म की रक्षा करना है। उन्होंने कहा जब भी धर्म पर संकट आया है तो संत समाज धर्म की रक्षा के लिए खलिदान देता रहा है।

मौडसी जेल से 11 कैदियों को मिली रिहाई

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा के स्थापना दिवस पर की गई विभिन्न घोषणाओं पर त्वरित अमल शुरू हो गया है। जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री द्वारा कैदियों की सजा माफी की घोषणा पर अमल करते हुए गुरुग्राम जिला कारागार मौडसी से 11 कैदियों को रिहा किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर एक नवंबर को प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों, जो वर्तमान में पेरौल पर हैं और जिनकी सजा छह महीने से कम शेष रह गयी है, उनको जेल में किए गए अरुंधत आचरण के आधार पर जीवन की नई शुरुआत के लिए, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की थी। प्रवक्ता ने कहा कि यह घोषणा जगदय व संगीत जुर्म जैसे हत्या, बलात्कार, तेजाब हमला और मानव तस्करी आदि के सजायप्रता कैदियों को इन आदेशों में राहत नहीं दी गयी है।

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjab Bagh, New Delhi-110035
 Corporate Office: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurgaon-122002
 E-mail: info@sainik.org
 Website: www.sainikfinance.com
 CIN: L26912DL1991PL-C045448
 Telephone No.: 011-28315036/0124-2719000
 Fax No.: 011-28315044/0124-2719100

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 28 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th day of November, 2021 at 11:30 a.m. inter alia, to consider & approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021 alongwith Statement of Assets & Liabilities and Cash Flow for the half year ended at 30th September, 2021, to place before the Board the Limited Review Report given by the statutory auditors of the Company on these Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021, and to discuss & approve all other matters with the permission of the Chair as may be deemed fit for the business of the Company.

The Trading Window for dealing in the shares of the Company by Designated Persons and their connected persons is closed from 1st October, 2021 till 48 hours after declaration of unaudited financial results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021 by the Board of Directors of the Company.

This said information is also available on the Company's website at www.sainikfinance.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board
 For Sainik Finance & Industries Limited
 Sd/-
 Place: Gurugram Rudra Son Director
 Date: 03.11.2021

SINDHU TRADE LINKS LIMITED
 Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjab Bagh, New Delhi-110035
 CIN: L63020DL1992PLC1216955

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Wednesday, 10th November, 2021 at 04.00 P.M., to consider and approve the Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter & Half Year ended on 30th September, 2021 virtually.

This said information is also available on the Company's website at www.sindhutrading.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board
 For Sindhu Trade Links Limited
 Sd/-
 Place: New Delhi Satya Pal Sindhu Director
 Date: 03.11.2021

हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय : 426, एअरफोर्स टावर-ए, जयसिंहा, नई दिल्ली-110025
 CIN : L37109DL1985PL-C003006

सूचना
 स्टॉक एक्सचेंज (एन) के खख संघ (लिस्टिंग ऑफिशियल एवं डिस्कलोजर आवश्यकताएं) नियमों, 2015, (लिस्टिंग नियमों) के नियम 29 के तहत एनए द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बलों के अलावा 30 सितंबर 2021 को तमान तिमाही अर्थ वर्ष हेतु कम्पनी के अर्कडिजिट (अंतरिम) वित्तीय परिणामों पर विचार करने और रिपोर्ट पर लेने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल को एक बैठक बुकवाई, 12 नवम्बर, 2021 को थप, 3.45 बजे 819, ट्रीडलाइफ टावर-ए, जयसिंहा, नई दिल्ली-110025 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता-रक्षक प्रमुख (चिन) एवं कम्पनी सचिव

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि (बुध-शुक्र 10:00 बजे)	राशि/ईएम्पी/रुम (लाभ/घर) रुम	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / समर्क विवरण/ई-मेल
1	एचबीपीएनएल	टॉलुएन खव हिबीनन, एचबीपीएनएल, फुडरि के तहत वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान 132 केवी एससी फैबल-पाई लान्ड के 30 अदर टायर्स की 120 लैस की मॉनिंग हेतु। 44/GE-50/2021-22 DATED 29-10-2021 ONLINE EVENT ID: 2021 HBC 194302 1	29.10.2021 08.11.2021	4.09 लाख	www.hbpn.org.in	1722583789 pro@hbpn.org.in
2	एचबीपीएनएल	132 केवी खव स्टेशन एचबीपीएनएल, राजीव गांधी नगर 2021 22 के दौरान चारदिवसी की मरामत और रखरखाव, फंसिंग की पेंटिंग और टेरे हूवे ट्रेच कवर्स की मरामत हेतु। 43/GE-50/2021-22 DATED 29-10-2021 ONLINE EVENT ID: 2021 HBC 194279 1	29.10.2021 10.11.2021	3.38 लाख	www.hbpn.org.in	1722583789 pro@hbpn.org.in
3	एचबीपीएनएल	हिसार में समकित पब्लिशन हब के विकास के कारण 132 केवी हॉटसी आईए हिसार (220 केवी) - बीयर (132 केवी) की लिफ्टिंग तथा 132 केवी बीयर्स से आर्ग नगर लान्ड की 32 केवी आईए हिसार (220 केवी) - आर्ग नगर लान्ड के साथ मिलान। EPC-D-34/PD&C, NIT NO. 34/PD&C DATED 29.10.2021	31.10.2021 29.11.2021	ईएमपी 92.98 लाख	www.hbpn.org.in	1722583789 pro@hbpn.org.in
4	एचबीपीएनएल	हिसार में समकित पब्लिशन हब के विकास के कारण 132 केवी हॉटसी आईए हिसार (220 केवी) - बीयर (132 केवी) की लिफ्टिंग तथा 132 केवी बीयर्स से आर्ग नगर लान्ड की 32 केवी आईए हिसार (220 केवी) - आर्ग नगर लान्ड के साथ मिलान। EPC-D-34/PD&C, NIT NO. 34/PD&C DATED 29.10.2021	31.10.2021 29.11.2021	ईएमपी 67.73 लाख	www.hbpn.org.in	1722583789 pro@hbpn.org.in
5	नगर पालिका निसिं	सीएस्सी भवन में अन्य विविध कार्य में निर्माण कार्य + 3 अन्य कार्य।	बंद होने की तिथि 11.11.2021	53 लाख	https://tenders.hry.nic.in	1745271608
6	सूचबीपीएन	एसडीओ डिजाइन एवं मूणधान निर्माण, सूचबीपीएन, पंचकुला हेतु 1 अदर शाहन अर्थात जोप कियारे पर लेना।	बंद होने की तिथि 11.11.2021	ईएमपी 6000/-	www.utbnv.org.in	9356063248 estab@haryanapanchkula@gmail.com
7	एम.सी. हिसार	गुंडे-16, एमसी कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, गोविंद नगर, दुर्गा कॉलोनी, सेक्टर-13, सेक्टर-13 'बी', सेक्टर-16-17, मॉडल टाउन, न्यू मॉडल टाउन, न्यू मॉडल टाउन एक्सपेंशन, दयानंद कॉलोनी, राजेन्द्र एक्सेज, एचडीसी विद्युत नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-9-11, पैम नगर, डायडा रोड पुल के ऊपर और नीचे, विन्डल पुल के ऊपर और नीचे सीएसएम रोड कैनाल और इनके आसपास के क्षेत्र में स्वीपिंग कार्य हेतु निविदा।	बंद होने की तिथि 11.11.2021		tenders.hry.nic.in	nanm.chissa@gmail.com
8	एसआईसीएटी डिवीजन, हिसार	हरियाणा के हिसार, पिबानो और फतेहाबाद जिलों में लैंड ड्रेनर मध्य लान्ड सहित अग्रमरमता आउटलेट से ऑन-फर्म तालाब-हाइड्रिड एन्यूटी आधाधिक मौडल के तहत एचपीओ मोड (एचएसए) में मौजूद विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में मध्यम से कैनाल आउटलेट्स की मरामत में एक वर्ष के एम्बेड कंडिक्शन, प्रदूषण / क्षति ट्रेनडिंग उन्वेष, जो पी नाल में है, फ्लि / मोटर सार समकित मडको-सिंचन (आर्गएम्बेड) योजनाओं में 3 वर्ष (3 वर्ष के ऑन-फॉर्म मडको-सिंचन प्रणाली के निरूपक रखरखाव सहित) 3 वर्ष के लिये सर्विस, डिजाइन, अडुॉ, स्वरस, टैरिफ, कमीनिंग और प्रकान तथा रखरखाव। कार्कवरी अभियंता, सिविल निगम डिवीजन, सूचबीपीएन, पंचकुला के लिये एक अदर शाहन अर्थात जोप कियारे पर लेना।	बंद होने की तिथि 16.11.2021	2556.45 लाख	https://tenders.hry.nic.in	9461500007 nanhissacd1@gmail.com
9	सूचबीपीएन	कार्कवरी अभियंता, सिविल निगम डिवीजन, सूचबीपीएन, पंचकुला के लिये एक अदर शाहन अर्थात जोप कियारे पर लेना।	बंद होने की तिथि 11.11.2021	ईएमपी 6000/-	www.utbnv.org.in	9356063248 xetab@haryanapanchkula@gmail.com
10	सूचबीपीएन	पंचकुला 'ओबी' डिवीजन, सूचबीपीएन, फुडरि के तहत विभाजन के तहत सिविलन केन्द्र के 24 वरे ठपयेत हेतु एसडीओ 'ओबी' सच डिवीजन न. 11, सूचबीपीएन, फुडरि के उपयोग हेतु ड्राइवर सहित आउटडोरसिंग बॉलिया के माध्यम से एक अदर शाहन मॉडल कोलेट - फिकअप (गोड को ऑन से खुला) समकित वाहन कियारे पर लेना।	बंद होने की तिथि 11.11.2021	6000/- प्रत्येक	www.utbnv.org.in	9315457384 xanoplusns@haryanapanchkula.org.in
11	नगर पालिका, इन्दी	एक वर्ष की अवधि हेतु इन्दी टाउन में बंदर फाईनेट के लिये।	बंद होने की तिथि 09.11.2021	5000/-	etenders.hry.nic.in	9467726650 secymc.india@gmail.com
12	हरियाणा पुलिस हाइड्रोग निगम, पंचकुला	हरियाणा राज्य में वार्षिक मरामत / निर्माण / आधुनिक और स्थापना / एएससी / प्रायोजन / विशेष मरामत / बर्बाद का पुनर्निर्माण।	08.11.2021 16.11.2021	2527.04 लाख	www.hhpc.org.in	ddpanchkulab@gmail.com
13	नगर पालिका, नारायणगढ़	नगर पालिका नारायणगढ़ के क्षेत्राधिकार में कुल 3 अदर किये जाने वाले विकास कार्य।	02.11.2021 08.11.2021	19.60 लाख	www.tenders.hry.nic.in	9034115350 secymnaraingarh18@gmail.com
14	डीएचबीपीएन	विद्युत सार कॉलोनी, हिसार में सर्वेक्षण प्रणाली हेतु आउटडोरसिंग सेवाओं के प्रायोजन हेतु निविदा एनआईटी सं. 15, एस्टेट कार्यालय, हिसार	30.11.2021 09.11.2021	9.51 लाख	www.dhbnv.org.in	9812452516 estabof@centralindia@hry.nic.in
15	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	दर अन्वेषण पर 2 वर्षों के लिये मिलेट लेम और एजानेस टोनेमीटर की आपूर्ति, स्थापना और कमीनिंग हेतु निविदा।	बंद होने की तिथि 23.11.2021	2.04 करोड़	www.hmsco.org.in	GENERAL MANAGER

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED

for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority, Suspense Account.

In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by February 05, 2022, the company shall transfer the shares to IEPF Authority without any further notice in compliance with and as per the procedure stipulated in aforesaid rules for time being in force.

In case the shares which are required to be transferred to IEPF Authority are held in physical form, the Company would be issuing duplicate share certificate(s) for transferring to IEPF Authority and upon issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) shall be deemed to be cancelled and non-negotiable. In case the shares are held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their account(s), for transfer of shares to DEMAT account of IEPF Authority.

In case the concerned shareholder(s) wish to claim the unclaimed dividend and the shares transferred to Demat Account of the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5 online, as prescribed under the IEPF Rules and same shall be available at IEPF Authority's website i.e. www.iepf.gov.in. and by sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules. Please note that no claim shall be made against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority. However it can be claimed back from the IEPF Authority by making an application to IEPF Authority in the Form IEPF-5, as per the IEPF Rules. This form is available on website of IEPF Authority viz. www.iepf.gov.in. For any information/clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the company at investors.relation@amtekauto.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA)- Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110 062 Ph.: 011-29961281/82/83 Fax No.: 011-29961284 at Email: beetalrta@gmail.com

For **AMTEK AUTO LIMITED**

Rajeev Raj Kumar (Company Secretary)

Issued with Approval of **Mr. Dinkar Tiruvannadapuram Venkatasubramanian** (Insolvency Professional)

Date: 04.11.2021
Place: New Delhi

IP Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011



BELLA CASA FAS

Regd Office : E-102,103, EPIP, Sitapur

Tel: 0141-2771844, Email: saurav@bella

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

Sl. No	Particulars	30th September 2021 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	6,833
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	795
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	795
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	588
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	588
6.	Equity Share Capital	1,147
7.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	
	1. Basic	5
	2. Diluted	5

Disclosures

- The above financial results are reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on 30th September, 2021, in compliance with the Companies Act, 2013 and Other Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on the Company's website www.bellacasa.in.
- Board of Directors in the meeting held on November 02, 2021 declared an Interim Dividend of Rs. 10/- per share for the quarter ended on 30th September, 2021.

Place: Jaipur

Date: 02nd November, 2021

on date at given auction centre, and notices shall be issued in this respect

group.com or Call at 7834886464.

FORM NO. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Part of Uttar Pradesh)

NOTICE OF APPEARANCE BY PUBLICATION (A.) 516 OF 2021

Under section 19(4) of the Recovery of Debts and Financial Institution Act, 1993 read with Debts Recovery Tribunal procedure,

Uttar Pradesh (applicant) VERSUS Kumbhare & ors (DEFENDANTS)

Share S/o Mr. V. Mahadeorao Kumbhare Sd/-, PKT 2, Sector E Vasant Kunj, New Delhi-

rao W/o Mr. Ajay Vyankatrao Kumbhare Sd/-, PKT 2, Sector E Vasant Kunj, New Delhi-

Construction Pvt Ltd, Regd. office- Bhi

ation, you are requested to file reply in two sets along with documents and affidavits through your duly authorised agent or legal counsel, after serving copy of the same on the Registrar, after publication of this notice, to appear before the tribunal on the date and time failing which the application shall be deemed to be abandoned.

Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

FORM NO. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Part of Uttar Pradesh)

NOTICE OF APPEARANCE BY PUBLICATION (A.) 515 OF 2021

Under section 19(4) of the Recovery of Debts and Financial Institution Act, 1993 read with Debts Recovery Tribunal procedure,

Uttar Pradesh (applicant) VERSUS Madan Lamba & ors (DEFENDANTS)

Mr. Madan Lamba H-3/82, Third Floor, Arwal Sweets, Rohini Delhi-110085

Mr. Sanjiv Lamba, H-3/82, Third Floor, Arwal Sweets, Rohini Delhi-110085

Construction Pvt Ltd, Regd. office- Flat no Rajendera Place, New Delhi

ation, you are requested to file reply in two sets along with documents and affidavits through your duly authorised agent or legal counsel, after serving copy of the same on the Registrar, after publication of this notice, to appear before the tribunal on the date and time failing which the application shall be deemed to be abandoned.

Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

New Delhi

November, 2021 has been re-scheduled to Saturday, 13th November, 2021 inter alia to consider and approve the standalone and consolidated un-audited financial results of the Company for the quarter and half Year ended 30th September, 2021 and other matters as per the agenda item.

The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's securities are listed and also be available on the website of the Company (www.superiorindustrial.in)

For Superior Industrial Enterprises Limited

Date: 03.11.2021
Place: New Delhi
Kamal Agarwal
Managing Director

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035
Corporate Office: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurugram-122002

E-mail: info@sainik.org
Website: www.sainikfinance.com
CIN: L26912DL1991PLC045449
Telephone No.: 011-28315036/0124-2719000
Fax No.: 011-28315044/0124-2719100

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th day of November, 2021 at 11:30 a.m. inter alia, to consider & approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021 along with Statement of Assets & Liabilities and Cash Flow for the half year ended at 30th September, 2021, to place before the Board the Limited Review Report given by the statutory auditors of the Company on these Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021, and to discuss & approve all other matters with the permission of the Chair as may be deemed fit for the business of the Company.

The Trading Window for dealing in the shares of the Company by Designated Persons and their connected persons is closed from 1st October, 2021 till 48 hours after declaration of unaudited financial results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2021 by the Board of Directors of the Company.

This said information is also available on the Company's website at www.sainikfinance.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board
For Sainik Finance & Industries Limited

Sd/-
Place: Gurugram
Date: 03.11.2021
Rudra Sen Sindhu
Director

पुलिस ने मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को पकड़ा

झगड़े में बीच-बचाव कराने गए युवक को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली



खास बातें

- सभी आरोपी नाबालिग
- सीसीटीवी की मदद से पुलिस को मिली सफलता

न्यू उस्मानपुर थाना इलाके में दोस्तों के साथ झगड़े में जाना एक युवक को भारी पड़ गया। पांच नाबालिगों ने युवक को बीच सड़क पर लात घूंसे से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम केशव उर्फ करण (18) है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले की सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, करण, गली नंबर 10, ब्रह्मपुरी में सपरिवार रहता था। परिवार में मां पूनम व एक छोटा भाई हैं। कई वर्ष पहले करण के पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। करण के दुकान पर मोटर मैकेनिक का काम करता था। वहीं करण का दोस्त नितिन अपने मामा के साथ शिव मंदिर ब्रह्मपुरी के पास रहता है। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2:50 बजे वह घर से फैंकट्टी जा

छोटे भाई ने बड़े को सड़क पर पटक, सिर पर चोट लगने से मौत

नई दिल्ली। नरेला थाना इलाके में झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई को सड़क पर पटक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक का नाम रमेश है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, रमेश, नरेला पॉकेट- 11 में सपरिवार रहता था। उसका उसके छोटे भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान छोटे भाई ने अपने बड़े भाई रमेश को सड़क पर पटक दिया। सिर सड़क पर पटकने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूछताछ के दौरान मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि उसका भाई शराब पीने का आदी है। वह नशे में गिर गया था। इस दौरान उसके सिर पर चोट लग गई। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची तो एक चश्मदीद ने मामले का पूरा खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि दोनों भाई के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान अतिल ने अपने भाई को सड़क पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

किया तो उन्हें भी पीट दिया। आरोपी करण को तब तक पीटते रहे, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की पहचान की और जगजीत नगर से ही उन्हें दबोच लिया।

तमाशबीन बने रहे लोग

करण के मौसा नीरज ने बताया कि

झगड़े के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने लगे। लोगों ने आगे आकर उसे बचाने की मदद नहीं की। वारदात के बाद करण के दोस्तों ने फोन कर वारदात के बारे में उसकी मां को बताया। इसके बाद उन्हें मामले की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद वह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि करण की मौत हो चुकी है।

ओर्गेनिक सोयाबीन के बीज की आपूर्ति के नाम पर टगी करने वाला अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लगभग तीस लाख की टगी के आरोप में संजीव चोपड़ा (60) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस पर ओर्गेनिक सोयाबीन के बीज की आपूर्ति के नाम पर टगी का आरोप है। दरअसल इसने जो मात्रा खरीदार भेजी तब हुई थी उससे कम मात्रा उन्हें भिजवाई थी। इसके लिये कागजी जालसाजी भी की गई थी। एडिशनल सीपी आर के सिंह के अनुसार सत्येंद्र सिंह सेंगर नामक व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि संजीव चोपड़ा के साथ 440 मीट्रिक टन बुकिंग फासो मूल

पुलिस की जांच पर एक नजर

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजीव ने शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध के बाद 20680 डॉलर (अमेरिकी डॉलर) एडवांस प्राप्त किए थे। इसके बाद उसने 11451.55 डॉलर की राशि और ले ली थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को और झांसे में लेकर 7110 अमरीकी डॉलर और अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिये थे। जांच से पता चला कि आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो और दस्तावेजों के आधार पर कंटेनरों का वजन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। शिपिंग लाइन की जांच से पता चला है कि 500 बैग प्रति कंटेनर का दावा करते हुये सोलबंद कंटेनर उन्हें सौंपे गए थे, लेकिन मुंबई बंदरगाह पर पहुंचने पर प्रति कंटेनर केवल 40 बैग ही पाये गये थे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आखिरकार गुरुग्राम सेक्टर 46 निवासी संजीव चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 40 साल से आयात-निर्यात के बिजनेस में है।

सोयाबीन बीज की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था। आरोपी ने लोड किए जा रहे कंटेनरों की फोटो/वीडियो फॉरवर्ड कर और पैसे मांगे। जब तीन कंटेनर मुंबई पोर्ट पर

पहलवान निशा दहिया और भाई की हत्या का आरोपी कोच सहयोगी के साथ अरेस्ट

नई दिल्ली। सोनीपत के खरखोदा में पहलवान निशा दहिया और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी पवन बराक उर्फ कोच (25) को सहयोगी सचिन दहिया (23) के साथ दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार सुबह झरका इलाके से दोनों को पकड़ा। पवन के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। पकड़े गये सचिन पर पहले से ही दो आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि पहलवान निशा दहिया और भाई सूरज की हत्या के संबंध खरखोदा पुलिस ने आईपीसी की धारा 148/149/302/307/354डी/506 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पवन कोच की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस की तरफ से एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दोनों को सोनीपत पुलिस को सौंपा जा रहा है। बता दें कि खरखोदा के हलालपुर गांव में बुधवार दोपहर को हुई निशा दहिया और उनके भाई सूरज की हत्या के मामले में पवन कोच मुख्य आरोपी था।

तीन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। सदर बाजार थाना पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के नाम विनय उर्फ बिनू, किशन उर्फ लालू और मनीष हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, चार बैटरी और ई-रिवश बरामद किया है। डीसीपी सागर सिंह कलसी के अनुसार, गत आठ नवंबर को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। शिकायतकर्ता तबवीर ने पुलिस को बताया कि तीन बदमाशों ने ई-रिवेश सहित कैश, मोबाइल लूट लिया था पुलिस ने पीड़ित को शिकार पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी।

दंपति को अगवा कर लूटने वाला 50 हजार का इनामी गिरफ्तार

नई दिल्ली। आनंद विहार इलाके में एक दंपति को कार में लिफ्ट देकर अगवा करने और लूटपाट के केस में 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी कोच के साथ 440 मीट्रिक टन बुकिंग फासो मूल

लजरी कार और साढ़े तीन लाख रुपए लेकर हो गया था फरार

काम पर रखे ड्राइवर ने पहले ही दिन मालिक को दिया धोखा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने नौकरी के पहले दिन ही मालिक की रेंज रोवर कार, साढ़े तीन लाख रुपए और एप्पल लैपटॉप लेकर फरार हुए एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी की रकम से खरीदी गई एक पल्सर बाइक बरामद हुई है। आरोपी का नाम तैमुर नगर दिल्ली निवासी लोकेश दीक्षित है। मूलरूप से यह हमीरपुर, यूपी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 26 अक्टूबर को शिकायतकर्ता बिजनसेमने ने आरोपी को बतौर कार ड्राइवर काम पर रखा था। उस दिन पीड़ित कार से लोकेश दीक्षित के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर आए। पीड़ित जब अपने



ऑफिस में गया, तभी मौका देख आरोपी ड्राइवर कार, कैश और लैपटॉप लेकर फरार हो गया। बाद में यह कार मध्य विहार इलाके में लावारिस हालत में मिली थी, जबकि लैपटॉप व अन्य दस्तावेज बदरपुर और सनलाइट कॉलोनी क्षेत्र में पाये गये थे। पुलिस ने टैक्नीकल सर्विलांस की मदद से आरोपी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसकी लोकेशन हमीरपुर यूपी में मिली, जिसके बाद एक

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (सब)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु.में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोटल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी	गांव गिगनाओ, लोहार, जिला भिवानी में आईआईडब्ल्यूपी के तहत सेमो-फूरिड बागवानी हेतु सौआई पर 1 अदद स्वामिसवल गहरे नलकूप का प्रवधान व स्थापना।	15.11.2021 23.11.2021	ईएमडी 41500/-	https://etenders.hry.nic.in	1722587570 mdmidharyana@gmail.com
2	एचवीवीएनएल	जेई ईंचार्ज एस/ऑफिस काहनौर, युएचवीवीएन, रोहतक के उपयोग हेतु किराया आधार पर एक अदद पिक-अप को आवश्यकता है।	बंद होने की तिथि 29.11.2021	4.26 लाख वार्षिक 6000.00 ईएमडी केवल कैम्पर हेतु	www.uhvbn.org.in	9034330352
3	हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला	हरियाणा राज्य के पड़ोसी और अम्बाला जिले में नारायणगढ़ रेंज में दरों की अनुसूची के अनुरूप विभिन्न लॉगिंग प्रचालनों और सभी सम्बन्धित कार्यों को पूरा करना।	बंद होने की तिथि 16.11.2021	45 लाख	www.hfdc.gov.in	0171-2551567 GMHFDC.AMBALA@GMAIL.COM
4	हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला	हरियाणा राज्य के पड़ोसी और अम्बाला जिले में साहा रेंज में दरों की अनुसूची के अनुरूप विभिन्न लॉगिंग प्रचालनों और सभी सम्बन्धित कार्यों को पूरा करना।	बंद होने की तिथि 16.11.2021	45 लाख	www.hfdc.gov.in	0171-2551567 GMHFDC.AMBALA@GMAIL.COM
5	हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला	हरियाणा राज्य के पड़ोसी और अम्बाला जिले में अम्बाला रेंज में दरों की अनुसूची के अनुरूप विभिन्न लॉगिंग प्रचालनों और सभी सम्बन्धित कार्यों को पूरा करना।	बंद होने की तिथि 16.11.2021	45 लाख	www.hfdc.gov.in	0171-2551567 GMHFDC.AMBALA@GMAIL.COM
6	हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला	मानक एक्ससिचर सहित 42" हरिजेंटल बैंड सां मशीन को आपूर्ति।	बंद होने की तिथि 16.11.2021	4.50 लाख	www.hfdc.gov.in	0171-2551567 GMHFDC.AMBALA@GMAIL.COM
7	एचवीवीएनएल	जेई ईंचार्ज एस/ऑफिस खरक कलां, युएचवीवीएन, रोहतक के उपयोग हेतु किराया आधार पर एक अदद वोलोरो कैम्पर की आवश्यकता है।	बंद होने की तिथि 29.11.2021	4.26 लाख वार्षिक 6000.00 ईएमडी केवल कैम्पर हेतु	www.uhvbn.org.in	9034330352
8	एचएसएसएमबी, जीन्द	गांव गांगोली से घोरोली-भिड़ताना रोड (रोड एलडी 10460) एमसी पिल्लूखेड़ा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण।	बंद होने की तिथि 25.11.2021	168.23 लाख	https://etenders.hry.nic.in	01681-252003 eejind36.hsamb@gmail.com
9	नगर निगम, मानेसर	एम.सी. मानेसर में गांव नवादा में तालाब के चारों ओर चारदिवारी का निर्माण।	15.11.2021 15.11.2021	33.63 लाख	https://etenders.hry.nic.in	8851125640 1722583789
10	एचवीवीएनएल	एम/एस आईयूपी मैटल्स एंड अलॉयज लि. के 3 एमवीए लोड को फीड करने के लिये एचवीवीएनएल द्वारा 132 केवी सब-स्टेशन सौंपला में नये 33 केवी वी की रचना। NIT NO. 40/2021-22/XEN/TS/RTK DATED.11.11.2021	11.11.2021 23.11.2021	1.39 लाख	www.hvnpn.org.in	pro@hvnpn.org.in
11	एचवीवीएनएल	33 केवी सब स्टेशन अमोहा (20 एमवीए) (प्लानिंग कोड 3बी2910*) को स्वतंत्र फीडिंग हेतु 132 केवी सब स्टेशन आदमपुर पर 1 अदद 33 केवी लाइन व्हे का निर्माण। E-TENDER ENQUIRY NO.25/CWD-2/VOL-XIII/ HVPNL/2021-22 DATED:- 11/11/2021	12.11.2021 25.11.2021	2.33 लाख	www.hvnpn.org.in	1722583789 pro@hvnpn.org.in
12	एचवीवीएनएल	132 केवी सब स्टेशन सेक्टर-27-28, हिसार (प्लानिंग कोड 1ए3064) (साइट सर्फेसिंग) पर अतिरिक्त 20/25 एमवीए 132/33 केवी ट्रांसफॉर्मर। E-TENDER ENQUIRY NO.25/CWD-2/VOL-XIII/ HVPNL/2021-22 DATED:-11/11/2021	12.11.2021 25.11.2021	2.33 लाख	www.hvnpn.org.in	1722583789 pro@hvnpn.org.in
13	एचवीवीएनएल	220/132 केवी सब स्टेशन पावर हाउस कॉलोनी, एचवीवीएनएल, करनाल में गेट नं. 1 से 132 केवी सब स्टेशन एचवीवीएनएल, करनाल तक पुराने विट्रुमन रोड को मरम्मत।	11.11.2021 18.11.2021	14.63 लाख	www.hvnpn.org.in	1722583789 pro@hvnpn.org.in
14	बल्लभगढ़ सह. दुग्ध उत्पादक संघ लि.	दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र, विनासपुर (गुरुग्राम), हरियाणा में वार्षिक दर अनुबंध आधार पर कैप 20केएल/दिन के एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रचालन एवं डिपॉजिट मेंटेंसंस।	11.11.2021 10.12.2021	10000/-	www.vitaindia.org.in	9968604725 vitabll@gmail.com
15	एचवीवीएनएल	शक्ति भवन, करनाल में ड्राइवर्स हेतु 1 अदद कमरे और 2 अदद वॉश रूम का निर्माण। 2021 HBC 195243 1/NIT NO. 56/TSKNL/2021-22 DT 10-11-2021	10.11.2021 18.11.2021	4.39 लाख	www.hvnpn.org.in	1722583789 pro@hvnpn.org.in
16	नगर परिषद, फतेहाबाद	नगर परिषद, फतेहाबाद में एमसी एरिया में विभिन्न गलियों के पोर्टहोल्स को मरम्मत।	10.11.2021 15.11.2021	24.93 लाख	www.etenders.hry.nic.in	9466731655 trunopscouncil@fatehabad@gmail.com
17	एचएसएसएमबी, झज्जर	गांव जटवाड़ा से अम्बोली तक (बकाया कार्य) सम्पर्क सड़क का निर्माण रोड आईडी 8940	बंद होने की तिथि 30.11.2021	51.96 लाख	https://etenders.hry.nic.in	01251-255364 xehhsamb.jhajjar@gmail.com
18	एम.सी. गन्नीर	एमसी गन्नीर, वार्ड नं. 14, एमसी गन्नीर में शिव पार्क का पुनरोद्धार + 1 अन्य कार्य।	12.11.2021 22.11.2021	59.03 लाख	https://etenders.hry.nic.in	secycomganaur@gmail.com
19	एचएसएसएमबी, रेवाड़ी	रेवाड़ी में एनबीएम में स्टाफ क्वार्टर श्रेणी-III और IV कर्मचारियों + डिवीजन रेवाड़ी में 2 अन्य निर्माण एल/वीएस कार्य को सार्वजनिक सूचना/निविदा सूचना 46/2021एआर।	08.11.2021 23.11.2021	110 लाख	https://etenders.hry.nic.in	01274-298431 xehhsamb.rewari@gmail.com
20	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लि.	ईटीओ स्टरलाइजर की आपूर्ति, स्थापना और प्रचालन + 5 अन्य कार्य हेतु निविदा।	बंद होने की तिथि 02.12.2021	18.03 करोड़	www.hmsci.org.in	GENERAL MANAGER
21	नगर पालिका, फरुखनगर	अमरनाथ के मकान से जिले के मकान तक, वार्ड नं. 05, एमसी फरुखनगर में आईपीवी रोड का निर्माण।	बंद होने की तिथि 21.11.2021	91438/-	https://etenders.hry.nic.in	9466826201 secymdarunhajar@gmail.com
22	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	एचटीसी करनाल लेक, करनाल, डब्लूके होटल, एचबीसी, फरीदाबाद, एचआरएच और सनबर्ड मोटेल सुरजकुण्ड, ब्यू बर्ड हिसार, एथनिक इंडिया गैर के विभिन्न टी/सी हेतु आउटडोर फर्नीचर का प्रवधान।	15.11.2021 06.12.2021	11.20 लाख	haryana tourism.hv.in	9216400440 haryana tourism@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in संवाद विज्ञा. सं.-13/2022/440/5628/1/88/7 दि. 12.11.21

चमक होल्डिंग्स लिमिटेड				
CIN: L5149DL1984PLC019884				
पंजी. कार्यालय : 55-बी, रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110015				
30 सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही हेतु अंशकक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाखों में)				
विवरण	अंशकक्षित		अंशकक्षित	
	समान 3 माह 30.09.2021	वर्तमान अवधि की समाप्त वर्ष से पूर्व तिथि आकड़े 30.09.2021	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त अनुकूल 3 माह 30.09.2020	समान पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2021
1 प्रचालनीय से कृत आय	1,384.02	2,709.93	3,603.08	7,787.00
2 लाभ हेतु शुद्ध लाभ (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	17.56	54.63	135.98	116.31
3 कर से पूर्व लाभ हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	17.56	54.53	135.98	116.31
4 कर और असाधारण मदों के बाद वर्ष हेतु शुद्ध लाभ	8.14	32.81	104.45	128.98
5 कुल व्यापक आय [कर के बाद वर्ष हेतु लाभ / हानि निहित और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	43.59	116.05	146.14	163.39
6 प्रचालन विद्या गणा प्रविष्टि/शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के)	324.50	324.50	324.50	324.50
7 अंशक प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के) (वार्षिक नती)				
वॉलिक व डायलैटेट अर्जन प्रति शेयर (रु. में)	1.34	3.58	0.45	0.47

टिप्पणियाँ :

- उपरोक्त अंशकक्षित वित्तीय परिणामों को समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और निदेशक मंडल द्वारा इसकी 12.11.2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किये गये।
- सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियमन 33 के तहत उपरोक्त अंशकक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा समीक्षा कम्पनी के वित्तीयक अंशकक्षकों द्वारा कर ली गई है और वे इस पर अपनी सौमित्र समीक्षा रिपोर्ट जारी कर चुके हैं।
- कम्पनी (Ind AS) नियमों 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार "परिचालन सेमेंटरी" Ind AS-108 के प्रावधानों के अनुसार है और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में उपलब्ध किये अनुसार है। कम्पनी के परिचालन "ट्रेडिंग ऑफ फ्यूटर्स, स्टॉक, स्कैप्स इत्यादि" शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं। विभिन्न प्रबंधन द्वारा केवल रिपोर्टेबल सेमेंट के रूप में लिया गया है।
- प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित कर चुके हैं कि 30 सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों में कोई असत्य अथवा प्रामाण्य करने वाला विवरण अथवा आकड़े निहित नहीं है और कोई भी संशोधन प्रवधान नहीं गया है जिससे विवरण अथवा उद्यम नितित आंकड़े प्रामाण्य बनें।
- 30 सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.chamakhholdings.com और वॉलिक स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट mylisting.msebi.in पर उपलब्ध हैं।
- पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के साथ स्पष्ट करने के लिये जहाँ आवश्यक है, रिपुष्ट / रिआडज कर लिये गये हैं।
- कोविड-19 महामारी के फलन और अनुवर्ती लॉकडाउन ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह से कम्पनी के प्रचालनों पर बुरा तरह से असर डाला है। यह सुनिश्चित करने के लिये की कम्पनी की विभिन्न और गतिविधियों का तब समय ही जारी रहे और अवरोध का प्रभाव कम किया जा सके, कम्पनी इसके सभी कर्मचारियों और परामर्शदाताओं के लिये एक चर्क फ्रॉम हॉम पॉलिसी बना चुकी है। कम्पनी इस महामारी को परिस्थिति से बाहर निकलने और सामान्य की भांति बिजनेस प्रचालन का संचालन करने के लिये सभी प्रबंधन विवरणों पर कार्य कर रही है।

बोर्ड के अतिरिक्त चमक होल्डिंग्स लिमिटेड हस्ता/सुभाष चन्द्र कजूरिया निदेशक क्र.आईएन : 0012537

दिनांक : 12.11.2021
स्थान : नई दिल्ली

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED							
Regd. off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044							
Corp. Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph. 0124-2719000, Fax: 0124-2719100							
CIN: L26912DL1991PLC045459, Website: www.sainikfinance.com , Email: info@sainik.org , legal.secretarial@sainikmnging.com							
Extract of Statement of Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended on 30 September 2021 (Rs. In Lakhs)							
Sl. No.	Particulars	3 months ended (Unaudited) 30.09.2021	3 months ended (Unaudited) 30.06.2021	Corresponding 3 months ended in the previous year (Unaudited) 30.09.2020	8 months ended (Unaudited) 30.09.2021	8 months ended in the previous year (Unaudited) 30.09.2020	Year to date figures for current year ended (Audited) 31.03.2021
1	Total Income from operations	555.92	553.76	1,178.59	1,109.68	1,877.44	2,482.52
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.27)	78.96	615.08	76.69	805.63	(156.84)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.27)	78.96	615.08	76.69	805.63	(156.84)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.02)	59.09	452.07	56.07	583.19	(96.18)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.02)	59.09	452.07	56.07	583.19	(93.55)
6	Equity Share Capital (face value of the share: Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year	-	-	-	-	-	3,235.69
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic :	(0.03)	0.54	4.16	0.52	5.36	(0.88)
	2. Diluted :	(0.03)	0.54	4.16	0.52	5.36	(0.88)

Notes:-

- The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Result for the quarter ended 30th September 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainikfinance.com
- The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 12 November 2021. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

By order of the Board
For Sainik Finance & Industries Limited
Sd/-

आई आर ई एल इंडिया लिमिटेड

(for continuing and discontinued operations (not annualised))								
Basic & Diluted	0.38	(0.29)	(0.81)	(2.80)	0.52	(0.51)	(1.04)	(2.94)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for Quarter and Half Year Ended 30.09.21 is available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.karmaenergy.co
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12.11.21.
- The Company is primarily operating in the business of Generation of Power from Renewable Sources. Hence, there is only one business segment as per Ind-AS 108 - Operating Segments.
- As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the review by the Statutory Auditors has been completed for the Quarter and Half Year Ended 30.09.21 and the Report has been forwarded to the stock exchanges. The Report does not contain any qualification.
- Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

Place: Mumbai
Dated: 12.11.21

For Karma Energy Limited
Sd/-
Dharmendra G. Siraj
Chairman
DIN - 00025543

Registered

E-mail: c.s

Tel. No.

EXTRACT OF

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044
Corp. Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph. 0124-2719000, Fax: 0124-2719100
CIN: L26912DL1991PLC045449, Website: www.sainikfinance.com, Email: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com

Extract of Statement of Standalone Financial Results of the Company
for the quarter ended on 30 September 2021

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 months ended	3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	6 months ended	Corresponding 6 months ended in the previous year	Year to date figures for current year ended
		30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	555.92	553.76	1,178.59	1,109.68	1,877.44	2,482.52
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.27)	78.96	615.08	76.69	805.63	(156.84)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.27)	78.96	615.08	76.69	805.63	(156.84)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.02)	59.09	452.07	56.07	583.19	(96.18)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.02)	59.09	452.07	56.07	583.19	(93.55)
6	Equity Share Capital (face value of the share; Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year						3,235.69
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic :	(0.03)	0.54	4.16	0.52	5.36	(0.88)
	2. Diluted :	(0.03)	0.54	4.16	0.52	5.36	(0.88)

Notes:-

- The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Result for the quarter ended 30th September 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainikfinance.com
- The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 12 November 2021. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

By order of the Board
For Sainik Finance & Industries Limited

Sd/-
Rudra Sen Sindhu
Director (DIN-00006999)

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 12 November, 2021

Date: 12.11.20
Place: Kanpur

NOTES:-

- The above U
- The Statutory
- This Stateme
- The Previous
- The above



ANSAL BUILDWELL LTD.

(AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY)

CIN No. : L45201DL1983PLG017225

Regd. Office : 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 Ph. : +91-11-23353051, 23353052, F

E-mail : info@ansalbl.com, Website : www.ansalbl.comEXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
ENDED SEPTEMBER 30, 2021

Sl. No.	Particulars	Standalone						
		Quarter ended		Half year ended		Year ended		Quart
		September 30,2021 (Unaudited)	June 30,2021 (Unaudited)	September 30,2020 (Unaudited)	September 30,2021 (Unaudited)	September 30,2020 (Unaudited)	March 31,2021 (Audited)	September 30,2021 (Unaudited)
1	Total income from Operations	11,918.59	641.89	2,115.14	12,560.48	2,216.96	7,517.83	11,921.25
2	Net Profit / (Loss) For the period before tax and exceptional Items	1,560.77	(31.93)	186.86	1,528.84	(147.46)	728.64	1,562.45